

इकाई परीक्षा - जुलै 2017

A

निम्न लिखित अंश पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें

"एक पैन स्याही भर दो!"

"बेटा स्याही की बोतल अभी- अभी खाली हो गई है। अब तो कल ही मिल पाएगी।"

"लेकिन इसने तो पैन में जो स्याही थी उसे भी ज़मीन पर छिड़क दिया।"

"बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए। कौनसी में पढ़ते हो?"

"पाँचवीं में।"

"दोनों"?

"हाँ दोनों, और हम दोनों का सेक्शन भी एक ही है- ए"

1. इस प्रसंग के पात्र कौन- कौन हैं? 1
2. साहिल और बेला कहाँ गए और क्यों? 2
3. बादल को देखकर घड़े को नहीं ढुलाना चाहिए इसका मतलब क्या है? 2
4. इस दृश्य की पढ़कथा तैयार करें 4
5. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था कविता " जानने" की हमारी जानी- पहचानी रूढी को तोड़ देते हैं। जानी - पहचानी रूढी का क्या मतलब है? 2
6. " अकेली निहत्थ आवाज़" किसका विशेषण है? 1
7. हमें किन- किन व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए? 2
8. सही मिलान 3

पैन में कुछ स्याही बची थी	वह तलवार पुरानी थी
जब वह उसके पास बैठा	उसे साहिल ने ज़मीन पर छिड़क दिया
चमक उठी सन सतावन में	उससे नज़र नहीं मिल पाई

9. बेला का मन खराब हो गया। क्यों? 2

संशोधन करें

10. मेघों का छायाओं में 1

निम्न लिखित अंश पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें

बेला का मन बहुत खराब हो गया, माटसाब चाहे मुझे पीट लेते मगर साहिल के सामने नहीं। वह साहिल के सामने खुद को शर्मादा महसूस कर रही थी, क्योंकि वह जालती थी कि वह साहिल की नज़र में अच्छी है। जब वह उसके पास आकर बैठी उसमें नज़र नहीं मिल पाई।

1. कहानी के अंश के आधार पर सही प्रस्ताव चुनकर लिखें-

(अ) बेला बहुत खुश थी। (आ) बेला साहिल से नाराज़ थी। (इ) बेला लज्जित थी। 1

2. बेला का मन बहुत खराब हो गया। क्यों? 2

3. बेला साहिल के सामने खुद को शर्मादा महसूस कर रही थी। क्यों? 2

4. माटसाब के बुरे व्यवहार से आज बेला बहुत दुखी है। बेला की डायरी 4

5. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था - किसकी कविता है? 1

6. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था - कविता के अनुसार मनुष्य को किस तरह जानना चाहिए? 1

7. टूटा पहिया किसका प्रतीक है? 1

8. "टूटा पहिया" कविता की समकालीनता पर प्रकाश डालने वाली पंक्तियाँ कौन-सी हैं? 2

9. माटसाब के व्यवहार से आप सहमत करते हैं? क्यों? 2

10. सही मिलान 3

व्यक्ति को मैं नहीं जानता था	हाथ बढ़ाने को जानता था
वह व्यक्ति मुसीबत में है	हताशा को जानता था
वह मुझे नहीं जानता था	इसे हमारी मदद की ज़रूरत है

संशोधन करें

11. दीपावली के छुट्टियाँ 1

निम्न लिखित अंश पढकर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें

वे एक दूसरे के बहुत नज़दीक रहकर, बल्कि कहना चाहिए बिलकुल सटकर बीरबहूटियाँ खोजते थे। उन्हें देखने के लिए वे बारिश की गंध भरी भूरी ज़मीन पर बैठ जाया करते थे।

बेला, इस बीरबहूटी का रंग तुम्हारे रिबन के जैसा लाल है। साहिल ने कहा।

तुमने कुछ सुना बेला? हाँ सुना पहली घंटी लग गई है। लेकिन मुझे पैन में स्याही भी भरवानी है दूकान से।

1. साहिल और बेला क्या खोजते थे? 1
2. साहिल और बेला बड़े दोस्त है। इसकी सूचना देनेवाले वाक्य इस अंश से चुनकर लिखें 2
3. बीरबहूटियों का रंग क्या है? 1
4. साहिल पैन में स्याही [भरवाएगी, भरवाएगा, भरवाएँगे, भरवाएँगी] 1
5. इस दृश्य के आधार पर पटकथा तैयार करें 4
6. विनोद कुमार शुक्ल की कविता की विशेषता क्या है? 1
7. कविता की आस्वादन टिप्पणी लिखते वक्त किन- किन बातों पर ध्यान देना है? 2
8. अपने पक्ष की असत्य जानते हुए भी

बड़े- बड़े महारथी

अकेली निहत्य आवाज़ को

अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें

तब मैं

रथ का टूटा हुआ पहिया

उसके हाथों में

ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ।

- अ. " सामना करना " के अर्थ में कवितांश में प्रयुक्त मुहावरा कौन- सा है? 1
- आ. इन पंक्तियों की प्रसंगिकता पर टिप्पणी लिखें 3
9. सही मिलान 3

मैं रथ का टूटा हुआ पहिया	-	दुसाहसी अभिमन्यु आकर गिर जाएँ
इतिहासों की गति झूठी पड जाने पर	-	ब्रह्मास्त्रों से लोहा ले सकता हूँ
अक्षौणी सेनाओं को चुनौती देता हुआ	-	सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय लें

संशोधन करें

10. बेला की पाँव अब भी काँप रहे हैं। 1

इकाई परीक्षा - जुलै 2017

D

निम्न लिखित अंश पढ़कर उसके नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखें

साहिल बेला का रिपोर्ट कार्ड देख रहा था और बेला साहिल को। आज आखिरी बारी वे एक दूसरे की कोई चीज को छूकर देख रहे थे।

तुम्हारी आँख में आँसु क्यों आ रहे हैं बेला? मुझे क्या पता बेला ने डबडबाई आँखों से हँसते हुए कहा।

साहिल की आँखें बीरबहूटी की तरह लाल होने लगी थी और उनमें बारिश की बूँदों सा पानी भर गया था।

1. कहानी के अंश के आधार पर सही प्रस्ताव चुनकर लिखें-

[अ] साहिल और बेला बहुत खुश थे। [आ] साहिल और बेला रो रहे थे। [इ] साहिल और बेला को कोई दुख नहीं थे।

1

2. साहिल और बेला क्यों दुखी है?

1

3. बेला से बिछुडने के कारण साहिल दुखी है। साहिल की डायरी

4

4. सही मिलान

3

साहिल की आँखें

बारिश की बूँदें

साहिल की चोट

बीरबहूटी की तरह लाल

साहिल के आँसु

बीरबहूटी का रंग

5. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था कविता में कौन- सा शब्द पर बल दिया है?

1

6. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था - कविता के भाव पक्ष और शिल्प पक्ष पर नरेश सक्सेना के निरीक्षणों का समर्थन करनेवाली पंक्तियाँ कौन- कौन सी है?

2

7. हताशा से एक व्यक्ति बैठ गया था - क्या याद दिलाती है?

2

8. चक्रव्यूह किसका प्रतीक है?

1

9. टूटा पहिया - आस्वादन टिप्पणी

4

10. संशोधन करें

मूँगपली की हरे खेतों में

1